

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 833-अ ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 10 दिसम्बर 2019 — अग्रहायण 19, शक 1941

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग

दाऊ कल्याण सिंह भवन (पुराना मंत्रालय) के समीप, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2019

आदेश

क्रमांक एफ 71-25/तीन (दो)/न. पा./विविध/ 2019/2983.— भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 य क सहपठित छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14, छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 11-क तथा नियम 48 के उपनियम (2) के परन्तुक की प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका आम निर्वाचन एवं उप निर्वाचन में मतदान के समय निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने और उनकी पहचान सुगम बनाने के लिये छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग एतद्वारा निर्देश देता है कि नगरपालिका के सभी निर्वाचकों को आम निर्वाचन तथा उप निर्वाचन में मतदान केन्द्र पर मत डालने हेतु अपनी पहचान स्थापित करने के लिये निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत मतदान अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा :-

- (1) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय किया गया मतदाता परिचय पत्र;
- (2) बैंक/डाकघर फोटोयुक्त पासबुक;
- (3) पासपोर्ट;
- (4) पेन कार्ड (PAN CARD);
- (5) आधार कार्ड;
- (6) राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय द्वारा उनके अधिकारी एवं कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र;
- (7) फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज;
- (8) मनरेगा जॉब कार्ड;
- (9) फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना (स्मार्ट) कार्ड;

- (10) ड्रायविंग लायसेंस;
- (11) स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान-पत्र ;
- (12) केन्द्रीय अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी दसवीं एवं बारहवीं की फोटोयुक्त अंकसूची;
- (13) बार कौशल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र ;
- (14) फोटोयुक्त विकलांगता प्रमाण-पत्र ;
- (15) छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैध फोटोयुक्त राशन कार्ड;
- (16) महाविद्यालय अथवा विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान-पत्र ; एवं
- (17) फोटोयुक्त शस्त्र लायसेंस;
- (18) छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर SEC-ER द्वारा Online जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची.

हस्ता./-

(जिनेविवा किण्डो)  
सचिव.